SHANTNU INVESTMENTS (INDIA) LIMITED

Regd. Office Address: DSC-319, DLF South Court, Saket, New Delhi-110017
Corporate Office Address: DSC-326, DLF South Court, Saket, New Delhi-110017
CIN- L45100DL1973PLC006795

(E mail id: -cs@greatvalueindia.com; website: www.shantnuinvestments.com, Phone No:-011-41349612-14)

Date: 7th November, 2020

To
Head- Listing & Compliance
Metropolitan Stock Exchange of India Ltd. (MSEI)
Vibgyor Towers, 4th floor,
Plot No C 62, G - Block,
Opp. Trident Hotel,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai-400 098, India

Dear Sir,

Sub: Publication of newspaper advertisement U/r 47 of SEBI (LODR) Regulations, 2015

This is with reference to the captioned subject, we would like to inform that pursuant to the provisions of Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Newspaper advertisement published in Financial Express and Jansatta on 07.11.2020. for Meeting of Board of Directors of Shantnu Investments (India) Limited to inter alia consider and approve the Un-Audited Financial Results for the quarter and half year ended on 30th September, 2020 on Thursday, 12th November, 2020 at 03:00 P.M. at the registered office situated at DSC-319, DLF South Court, Saket, New Delhi-110017.

Extracts of E paper has been enclosed for your reference and records.

Thanking you,

For Shantnu Investments (India) Limited

For SHANTNU INVESTMENTS (INDIA) LTD.

Mayank Agarwal Director & CFO Director JFU

Place: New Delhi

BITS LIMITED

CIN: L72200DL1992PLC241971 NOTICE Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Regulation 29 read with Regulation 47 and other applicable regulation of the SEB (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday 13th November, 2020 at 11:00 A.M. at the registered office of the company at 711, 7th Floor, New Delhi House, 27, Barakhamba Road, New Delhi-110001 inter-alia, to consider, approve & take on record the Un-audited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter

and Half Year Ended 30th September, 2020 and

any other item of business as mentioned in

agenda.

Regd. Off.: 711, 7th Floor, New Delhi House, 27, Barakhamba Road, New Delhi-110001

This intimation is also available on the website of the company at www.bits.net.in and on the websites of the Stock Exchanges where the shares of the company are listed at www.bseindia.com. For BitsLimited

Surendra Singh Tangar Company Secretary Place: New Delhi Date: 06.11.2020 & Compliance Officer



Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 (1)(a) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, 13th November, 2020 at D-5, Ansal Villa, Satbari, Chattarpur, New Delhi-110074 inter alia, to consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended 30th September, 2020 along with the Limited review report thereon by Statutory Auditors of the Company as required under Regulation 33 of the said Regulations. The copy of this intimation shall also be available on the

Place: New Delhi Date: 06 November 2020 Vineet Kumar Thareja (Company Secretary & Compliance Officer)

For MODIPON LIMITED

Company's website at http://www.modipon.net and on

the website of the BSE Limited i.e., www.bseindia.com

HIND SECURITIES & CREDITS LIMITED Regd. Off: D-16, Ground Floor, Udyog Nagar, Nangloi, Delhi-110041 CIN: L74899DL1993PLC056702 Contact No.: +91-9899425575 Email: supersecurities1993@gmail.com, info_hindsecurities@yahoo.in

Website: www.supersecurities.in NOTICE Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Regulation 29, 33 read with

Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulation, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company has been scheduled to be held on Friday, November 13, 2020 at 12.00 noon at the registered office of the company at D-16 Ground Floor, Udyog Nagar, Nangloi, Delhi 110041 to consider, approve and take on record inter-alia the unaudited financial results of the Company for the quarter ended on September 30, 2020. The information is also available on the

company's website at www.supersecurities.in and on the recognized stock exchange www.bseindia.com.

For Hind Securities & Credits Limited Parul Chadha Place : Delhi Company Secretary and

Date: 06.11.2020 Compliance Officer SHANTNU INVESTMENTS (INDIA) LTD.

CIN: L45100DL1973PLC006795 Reg Office: DSC-319, DLF South Court,

Saket, New Delhi-110017 Email: cs@greatvalueindia.com Phone No. 011-41349612-14 Website: www.shantnuinvestments.com

Sub: Intimation of Boar d Meeting U/r 29(1) of SEBI(LODR) Regulations, 2015

This is with reference to the captioned subject, we would like to inform you that

pursuant to the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, The Meeting of Board of Directors of Shantnu Investments (India) Limited will be held on Thursday, 12' November, 2020 at 03:00 P.M. at the registered office situated at DSC-319, DLF South Court, Saket, New Delhi-110017 to inter alia consider and approve the Un-Audited Financial Results for the quarter and half year ended on 30" September, 2020. For Shantnu Investments (India) Limited

Place: New Delhi Date: 06.11.2020 Vinay Anand Company Secretary & Compliance Officer

NEWTIME INFRASTRUCTURE LIMITED (CIN: L24239HR1984PLC040797) Regd. Office: Lotus Green City Sector 23 & 24. Bhiwadi Alwar Bypass 75 Mt Road Dharuhera Rewari HR 123401 Phone: +91-7419885077 E-mail: newtimeinfra2010@gmail.com Website: www.newtimeinfra.in

NOTICE OF BOARD MEETING Notice is hereby given that pursuant to the Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the company scheduled to be held on Thursday, November 12, 2020, inter alia, to consider, approve and take on record the

The said Notice may be accessed on the Company's website at https://www.newtimeinfra.in/ and the website of BSE http://www.bseindia.com/. For NEWTIME INFRASTRUCTURE LIMITED

un-audited Standalone & Consolidated

Financial Results for the Quarter and Half

Year Ended on September 30, 2020.

ASHISH PANDIT Date: 06.11.2020 Place: New Delhi DIN: 00139001

KMF BUILDERS & DEVELOPERS LTD Corporate Office: 967 Vikram Tower Rajendra place, New Delhi - 110008 Registered Office: Flat No. 508, Golf Manor, NAL Wind Tunnel Road, Murgoshpalya, Bangalore-540017 www.kmfbuilders.com Tel ph:25238007,41486142-43 CIN: L45203KA1995PLC017422

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Thursday, 12th November, 2020, at 01.00 P.M. its virtual meeting inter alia, to consider and approve un-audited financial results of the Company for the guarter n half year ended 30th September, 2020 and other items of

The said notice can be accessed on the Company's website at www.kmfbuilders.com and may also be accessed on the Stock Exchange website at www.bseindia.com.

agenda.

Further, it is notified that the window for trading in securities of the Company shall remain closed from 01= October, 2020 to 1211 November 2020 (both days inclusive) as per the provisions of the Insider Trading Code of

the Company.

For KMF BUILDERS AND DEVELOPERS LTD **GORVE CHADHA** MANAGING DIRECTOR

Date: 06.11.2020 DIN: 06407884 Place: Delhi

financialexp.epap.in



SATIA INDUSTRIES LIMITED Regd. Office: VPO: Rupana, Malout Muktsar Road, Distt: Sri Muktsar Sahib 152026 (PUNIAB)

CIN: L21012PB1980PLC004329

NOTICE

Pursuant to Regulation 29(1) of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, It is hereby intimated that the Board Meeting of the Company is scheduled to be held on Friday, 13th November, 2020 inter alia to consider and take on record the Unaudited Financial Results of the Company for the Quarter and Half Year ended on 30th September, 2020.

It is also informed that the trading window shall re-open at 9:00 AM on Monday, November 16,2020, in accordance with the "Code of Conduct for Prevention of Insider Trading " as adopted by the Company in compliance of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulation, 2015. For Satia Industries Ltd

Kothari Fermentation and Biochem Ltd. Œ CIN: L72411DL1990PLC042502

Regd. Office: 16, Community Centre, First Floor, Saket, New Delhi-110017 Tel: 011-26850004, E-Mail: info@kothariyeast.in, Website: www.kothariyeast.in

Pursuant to Regulation 29(1)(a) read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulation 2015, Notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, the 13" day of November 2020 at the Registered Office of the Company, inter-alia, to consider and approve the Unaudited Financial Results for the guarter/half year ended on 30th September, 2020.

This information is also available on the website of the Company at www.kothariyeast.in and on the website of the Stock Exchange at www.bseindia.com

For KOTHARI FERMENTATION & BIOCHEM LIMITED

Place: New Delhi Date: 06/11/2020

Place: VPO Rupana

Date: 06-11-2020

Kavita Tanwar Company Secretary

(Rajinder Kumar Bhandari)

Joint Managing Director

UNIVERSAL OFFICE AUTOMATION LIMITED Regd. Office: 806, Siddharth, 96, Nehru Place, New Delhi - 110019

CIN: L34300DL1991PLC044365, Website: uniofficeautomation.com Pursuant to Regulation 29 (1) (a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)

Regulations, 2015 the exchange is hereby informed that the meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, November 10, 2020 at 3.30 p.m. inter alia to consider following items: 1. To consider & approve the un-audited results of the Company for the quarter and half year

ended on September 30, 2020. To consider & approve notice calling the 28th Annual General Meeting of the Company to be held on December 15, 2020.

Further in terms of "Minimum Standards for Code of Conduct to Regulate, Monitor and Report Trading' for dealing in securities of the company, the Company has decided that the trade close period (i.e. closure of trading window) commence from 6.00 p.m. on 06-11-2020 and end 48 hours after the results are made public on 12-11-2020. For Universal Office Automation Ltd.

Date: 30.10.2020 Naina Luthra Place: Noida Company Secretary GOOD YEAR
GOODYEAR INDIA LIMITED

Registered office: Mathura Road, Ballabgarh (Dist. Faridabad) - 121004, Haryana Telephone: 0129-6611000 Fax: 0129-2305310, E-mail: gyi_info@goodyear.com, Website: www.goodyear.co.in

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTHS ENDED SEPTEMBER 30. 2020

(CIN: L25111HR1961PLC008578)

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2						(Rs. In Lakhs)
Particulars	Current 3 months I ended (30/09/2020	Preceding 3 months ended (30/06/2020)	Corresponding 3 months ended (30/09/2019)	Year to date figures for current period ended (6 Months) (30/09/2020)	Year to date figures for Corresponding period ended (6 Months) (30/09/2019)	Year to date figures for previous year ended (12 Months) (31/03/2020)
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1 Total income from operations	48,663	23,338	46,261	72,001	96,186	1,78,074
2 Net Profit/ (loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	6,489	(600)	4,301	5,889	8,338	11,684
3 Net Profit/ (loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	6,489	(600)	4,301	5,889	8,338	11,684
4 Net Profit/ (loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	4,856	(449)	3,779	4,407	6,404	8,884
5 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (loss) (after tax)]	4,919	(466)	3,759	4,453	6,255	8,477
6 Paid-up equity share capital (Face Value of Rs.10/- per share)	2,307	2,307	2,307	2,307	2,307	2,307
7 Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) (not annualised): a) Basic (Rs.)	21.05	(1.95)	16.38	19.10	27.76	38.51
b) Diluted (Rs.)	21.05	(1.95)	16.38	19.10	27.76	38.51

NOTES:

Date: November 6, 2020

available on the Company's website i.e www.goodyear.co.in/investor-relations.

1 The above is an extract of the detailed format of the Standalone Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2020 filed with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, as amended. The full format of the Standalone Unaudited Financial Results are available on the Stock Exchange website at www.bseindia.com and also

2 The Statement has been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards ("Ind AS") as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder and in terms of Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, as amended.

3 The Company is engaged in the business of sales of automotive tyres, tubes and flaps. The Company sells tyres of its own brand "Goodyear". The Chief Operating Decision Maker (CODM), Managing Director, performs a detailed review of the operating results, thereby makes decisions about the allocation of resources among the various functions. The operating results of each of the functions are not considered individually by the CODM, the functions do not meet the requirements of Ind AS 108 for classification as an operating segment, hence there is only one operating segment namely, "Automotive tyres, tubes & flaps"

4 In 2008, the State of Haryana (the State) introduced the "Entry Tax Act" ("Act"), which the Punjab and Haryana High Court declared as 'Unconstitutional'. The State did not frame and notify enabling "Entry Tax Rules", and no notice or demand has been received to date by the Company. Accordingly, the amount of liability, if any, under the Entry Tax Act involved has not been quantified by the Company. On November 11, 2016, the nine Judges Bench of Hon'ble Supreme Court held that the State Governments do have right to levy an 'Entry Tax', however (i) whether States have enacted correct legislations in alignment with Indian Constitutional provisions (ii) whether such taxes demanded by State Governments were actually used for intended development of local area and (iii) the interpretation of the word "Local Area" were among questions not addressed by the November 11, 2016 ruling, but instead are to be heard by Hon'ble Divisional Bench of the Supreme Court individually for each state, on merits.

The above mentioned matter heard by the Hon'ble Divisional Bench of the Supreme Court and were remanded back to the Puniab and Harvana High Court and directed that fresh petitions should be filed by the parties pased on the above principles given by the nine Judges Bench of Supreme Court. The Company has filed its fresh petition in May 2017 and based on legal opinion have considered this as contingent liability at this stage.

5 The Code on Social Security, 2020 ('Code') relating to employee benefits during employment and post-employment benefits received Presidential assent in September 2020. The Code has been published in the Gazette of India. However, the date on which the Code will come into effect has not been notified. The Company will assess the impact of the Code when it comes into effect and will record any related impact in the period the Code

6 The Company has considered the ongoing possible effects that may result from the pandemic relating to COVID 19 on the carrying amount of all assets and liabilities as at September 30, 2020. In developing the assumptions relating to the possible future uncertainties in the global economic conditions because of this pandemic, the Company, as at the date of approval of these financials results has used internal and external sources on the expected future performance of the Company. The Company has performed sensitivity analysis on the assumptions used and based on the estimates expects the carrying amount of these assets / liabilities will be recovered / settled and subsequent liquidity is available to fund the business operations for at least another 12 months. The impact of COVID-19 on the Company's financial results may differ from that estimated as at the date of approval of these financial results and would be recognized prospectively. 7 This Statement has been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on November 6, 2020.

(Rs. in Lakh

Place: New Delhi

For GOODYEAR INDIA LIMITED Sandeep Mahajan

Managing Director

ACTION CONSTRUCTION EQUIPMENT LIMITED

CIN: L74899HR1995PLC053860 Regd. Office: Dudhola Link Road, Dudhola, Distt. Palwal-121102, Haryana

Phone: +91-1275-280111 (50 Lines), Fax: +91-1275-280133, Website: www.ace-cranes.com, Email Id: cs@ace-cranes.com

EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTHS ENDED 30TH SEPTEMBER, 2020

		Standalone				Consolidated					
S.		Particulars Quarter Ended Six		Six mon	nonth Ended Year Ended		Quarter Ended		Six month Ended		Year Ended
No.		30.09.2020 (Un-Audited)	30.09.2019 (Un-Audited)	30.09.2020 (Un-Audited)	30.09.2019 (Un-Audited)	31.03.2020 (Audited)	30.09.2020 (Un-Audited)	30.09.2019 (Un-Audited)	30.09.2020 (Un-Audited)	30.09.2019 (Un-Audited)	31.03.2020 (Audited)
1,	Total Income from Operations	26828.23	26811.01	36919.94	56146.88	115619.75	26832.35	26812.23	36929.24	56149.66	115622.96
2.	Net Profit for the period (Before Tax, Exceptional and Extraordinary items)	1904.68	1557.55	1474.01	3324.30	6819.70	1905.27	1555.80	1466.45	3313.12	6802.94
3.	Net Profit for the period before tax (After Exceptiona and Extraordinary items)	1904.68	1557.55	1474.01	3324.30	6819.70	1905.27	1555.80	1466.45	3313.12	6802.94
4.	Net Profit for the period (after tax, Exceptional and Extraordinary items)	1459.32	1433.23	1037.67	2625.10	5263.81	1459.91	1431.48	1030.11	2613.92	5247.05
5.	Total Comprehensive Income (after tax)	1459.32	1433.23	1037,67	2625.10	5249.90	1459.91	1431.48	1030.11	2613.92	5233.14
6.	Equity Share Capital (Face value of Rs. 2/- each)	2269.66	2308.12	2269.66	2308.12	2269.66	2269.66	2308.12	2269.66	2308.12	2269.66
7.	Earnings Per Share (Face value of Rs. 2/- each) 1. Basic: 2. Diluted:	1.29 1.29	1.24 1.24	0.91 0.91	2.27 2.27	4.58 4.58	1.29 1.29	1.24	0.91 0.91	2.27 2.27	4.57 4.57

(a) The above is an extract of the detailed format for quarter and half year ended on 30th September, 2020 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter/half year Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) (www.nseindia.com, www.bseindia.com) and on the Company's website www.ace-cranes.com.

(b) The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on November 06, 2020.

For Action Construction Equipment Limited

Vijay Agarwal

Place: New Delhi Date: November 06, 2020

PUBLIC NOTICE General public is hereby informed that our client, M/s. Muthoot Finance Ltd. (GSTIN 32AABCT0343B1Z7), Registered Office: 2nd Floor, Muthoot Chambers, Banerji Road,

Kochi - 682018, Kerala, India CIN: L65910KL1997PLC011300, Ph: +91 484-2396478, 2394712, Fax: +91 484-2396506 mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com is conducting Auction of ornaments (NPA accounts for the period up to 31.12.2018 & Spurious/Low quality accounts for the period up to 31.12.2019), pledged in its favour, by the defaulting Borrowers, as detailed hereunder. All those interested may participate. First Auction Date: 16.11.2020

Kharkhoda: MGL-3, 37, 46, 62, 88, 226, 245, MUL-30, 94, 111, 127, 145, 159 Second Auction Date: 17.11.2020, Auction Centre: First Floor, Pawan Mega Mall opp, HDFC Bank Subash Chowk, Sonipat, Pin:131001

First Auction Date: 16.11.2020 Samalkha -(Ha): MLS-33, 34, MUL-486, 588, 1030

Second Auction Date: 18.11.2020, Auction Centre: Muthoot Finance Ltd., Gohana Chowk, G.T. Road, Above Blue Dart, Panipat Pin:132103

Ambala City - Baldev Nagar: MUL-258, Ambala-Naraingarh: MUL-1526

Second Auction Date: 19.11.2020, Auction Centre: Muthoot Finance Ltd., 172-B Rai Market, Near Ambala Filing Station, Ambala, Cantt-Haryana-133001

First Auction Date: 16.11.2020 Safidon (Ha): MUL-443

Second Auction Date: 20.11.2020, Auction Centre: Ground Floor, Near Shyam Radio, Nehar Pul Ke Pass, Safidon, Haryana - 126112

First Auction Date: 19.11.2020 Kanina (Ha): MGL-176, 201, 204, 220, 221, 223, 226, 240, 260, 269

Second Auction Date: 20.11.2020, Auction Centre: Ground Floor, Near Oriental Bank of Commerce, Opp. ITI RAO, Tula Ram Marg-Mahendergarh, Haryana First Auction Date: 19.11.2020

Mandi Dabwali (Ha): MGL-1308, MSL-5728, 9015, MUL-15, 261, 1000, 1372, 1401, 2025, Ellanabad (Ha): MUL-296 Second Auction Date: 21.11.2020, Auction Centre: Muthoot Finance Ltd., Ground Floor, H.No. 238/1, Space Empire, Ram Colony, Barnala Road, Sirsa, Haryana-125055

First Auction Date: 19.11.2020 Meham Rothak Dist: MGL-546, MSL-506, MUL-135, 150, Kalanaur-(Ha): MGL-291, 292, MUL-12, 26, 84, 121, 122, 133, 143, 207, 267, 496

First Auction Date: 19.11.2020 Hissar - Sirsa Road: MUL-1474, Hansi - (Ha): MUL-121, 123, 330, 332, 422, 559, 1116, Adampur (Ha): MAL-38, MGL-463, 828, 841, MSL-224, 363, 371, MUL-18, 213, 227

Second Auction Date: 23.11.2020, Auction Centre: First Floor, City Centre, Above Oriental Bank of Commerce, Opp. City Police Station, Rohtak, Haryana -124 001

Second Auction Date: 24.11.2020, Auction Centre: Muthoot Finance Ltd., 1st Floor, Shyam Complex, Above Diamond Automobile, Delhi Road, Hissar, Haryana-125005 First Auction Date: 19.11.2020

Jakhal - (Ha): MUL-228, 382, 429, 430, 530, 785

Second Auction Date: 25.11.2020, Auction Centre: Municipal No. 287, Ground Floor, Ward No. 20, G.T.Road, Near Union Bank Of India, Fatehabad-125 050, Haryana First Auction Date: 19.11.2020

Jhajjar - (Ha): MUL-295, 365 Second Auction Date: 26.11.2020, Auction Centre: Shop No 3&4 First Floor R.N.Plaza Railway Road Bahadurgarh Distt. Jhajjar, Haryana-124507

First Auction Date: 19.11.2020 Spurious & Low Quality: Jind Rohtak Road - (Ha): MWS-602, 618

Second Auction Date: 27.11.2020, Auction Centre: Muthoot Finance Ltd., SCF No 26, Ground Floor, Diwankhana Market, Near Rani Talab, Jind - 126102 The auctions in respect of the loan accounts shown under the branch head will be conducted at the respective branches.

However, please note that in case the auction does not get completed on the given date(s), then in that event the auction in respect thereto shall be conducted/continued on Second Auction Date at the given Auction Centre, and further in case the said ornaments are still not successfully auctioned on these dates then such auction shall be continued on subsequent days thereafter, at this same venue. No further notices shall be issued in this respect.

Kohli & Sobti, Advocates, A 59A, First Floor, Lajpat Nagar-II, New Delhi - 110024

Note: Customers can release their pledged ornaments before the scheduled auction date, against payment of dues of our client. Customer can also contact Email ID: auctiondelhi@muthootgroup.com or Call at 7834886464, 7994452461.



SEASONS FURNISHINGS LIMITED CIN - L36101DL1990PLC039238

Registered office: 64, Ground Floor, Ring Road Lajpat Nagar III, New Delhi 110024 Email: cs@seasonsfurnishings.com, Website: www.seasonsfurnishings.com Phone No. 011-41582040 EXTRACTS OF AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR

THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED ON 30™ SEPTEMBER 2020 (Rs. In Lacs)

PARTICULARS		Quarter ended			Half Yea	Years ended	
		30-09-2020 30-06-2020 3		30-09-2019	30-09-2020	30-09-2019	31-03-20
1	Total income from operations (Net)	108.99	12.02	159.76	121.01	301.03	590.24
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax and exceptional items)	41.35	(334.89)	(3.68)	(293.54)	0.49	(727.93)
3	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax and after exceptional items)	41.35	(334.89)	(3.68)	(293.54)	0.49	(727.93)
4	Net Profit/ (Loss) for the period (after tax and after exceptional items)	42.08	(335.64)	(0.92)	(293.56)	0.42	(728.17)
5	Total comprehensive Income for the period after comprising Profit/ (Loss) for the period (After tax) and other comprehensive Income (after Tax)	42.08	(335.64)	(0.92)	(293.56)	0.42	(728.17)
6	Equity Share Capital	739.39	739.39	739.39	739.39	739.39	739.39
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)						
8	Earnings Per Share (Face Value of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic: Diluted:	0.57 0.57	(4.54) (4.54)	(0.01) (0.01)	(3.97) (3.97)	0.01 0.01	(9.85) (9.85)

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results for the Quarter and half year ended on 30.09.2020 filed with the stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing and other disclosure requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual standalone Financial Results for the Quarter and half year ended on 30.09.2020 are available on the website of the stock exchange (www.bseindia.com) and the company's website www.seasonsfurnishings.com.

> For and on behalf of the Board of Directors (Mandeep Singh Wadhwa)

Place: New Delhi Date: 06.11.2020

> Genus energizing lives

GENUS PRIME INFRA LIMITED

(Formerly Gulshan Chemfill Limited) CIN:L24117UP2000PLC032010

Regd. Office: Near Moradabad Dharam Kanta, Kanth Road, Harthala, Moradabad-244001, Uttar Pradesh Corporate Office: D-116, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020

Ph.:0591-2511171 | Fax: 0591-2511242 | E-mail: cs.genusprime@gmail.com | Website: www.genusprime.com

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2020

(Rs. in Lakhs) CONSOLIDATED

Chairman & Managing Director

			STANDALONE		CONSOLIDATED			
S. NO.	PARTICULARS	Quarter Ended 30.09.2020	Half Year Ended 30.09.2020	Quarter Ended 30.09.2019	Quarter Ended 30.09.2020	Half Year Ended 30.09.2020	Quarter Ended 30.09.2019	
	1	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	
1	Total income from operations	1.26	8,44	8.13	3.66	10.84	8.13	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(2.60)	(1.00)	3.53	(1.28)	(1.29)	2.16	
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(2.60)	(1.00)	3.53	(1.28)	(1.29)	2.16	
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(2.60)	(1.00)	3,53	(1.28)	(1.29)	2.16	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(2.60)	(1.00)	3.53	(1.28)	(1.29)	2.16	
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Rs.2/- each)	298.53	298.53	298.53	298.53	298.53	298.53	
7	Reserves (including Revaluation Reserve)	8	(#J)	8	(9)	*	(*)	
8	Earnings Per Share (of Face value of Rs.2/- each) - (not annualised) (amount in Rs.)							
	Basic :	(0.02)	(0.01)	0.02	(0.01)	(0.01)	0.01	
	Diluted:	(0.02)	(0.01)	0.02	(0.01)	(0.01)	0.01	

Notes:

 The above financial results of Genus Prime Infra Limited ("the Company") have been reviewed by the Audit. Committee and taken on record by the Board of Directors at their meeting held on 06th November, 2020. The statutory auditors of the Company have carried out the limited review of the financial results. The Above financial results of the Company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards

(IND AS) prescribed under section 133 of The Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended. Previous year/period figures has been regrouped/reclassified, Wherever necessary to conform to those current year

For and on behalf of the Board of Directors

(Amit Agarwal)

Whole Time Director & CEO DIN: 00016133

New Delhi

Date: November 06, 2020

classification.

Place: Moradabad

Chairman & Managing Director

ई-मेलः info@shashankinfo.in

सूचना सेबी (सचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 29 के अनुसार, एतद्वार सूचना दी जाती है कि 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए कम्पनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार, अनुमोदन तथा रिकार्ड पर लेने के लिए कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठक शुक्रवार, 13 नवम्बर, 2020 को कम्पनी के पंजीकृत

कार्यालय में आयोजित की जायेगी। कृते शशांक ट्रेडर्स लिमिटेड

डीआईएन : 05289775 दिनांक: 05.11.2020 स्थानः नई दिल्ली

RITZ MERCANTILE LIMITED Regd. Off.: 603, Sethi Bhawan. Rajendra Place, New Delhi-110008 CIN: L52110DL1985PLC019805

NOTICE Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company, will be held on Thursday, 12th November, 2020 at 4.00 P.M. at the Registered office of the company to *inter-alia* consider and take on record the Unaudited Financial Results for the quarter ended 30" September, 2020 and to consider the notice of Annual General Meeting will be held or Saturday, 12th December, 2020 at the Registered permission of the Chair.

The said notice may be accessed on Company's

website www.ritzmercantile.com and may also be accessed on the stock Exchanges websites at For Ritz Mercantile Ltd

Garvit Singhvi Whole Time Director Place : New Delhi Date : 06.11.2020

एलायंस इन्टीग्रेटेड मेटलिक्स लिमिटेड CIN:L65993DL1989PLC035409 पंजीकृत कार्यालयः ऽवाँ तल, यूनिट नं. ऽ०६, बिल्डिंग नं ऽ७, पंजूशा बिल्डिंग, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली-110019 ई-मेल आईडी: alliance.intgd@rediffmail.com; वेबसाईटः www.aiml.in I फोन: 91-11-40517610

बोर्ड की बैठक की सूचन सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन

अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनसार, एतद्वारा सचना दी जाती है कि कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठक बुधवार, 11 नवम्बर, 2020 को आयोजित की जाएगी जिसमें 30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए अन्य बातों के साथ-साथ कम्पनी के अनंकेक्षित स्टैण्डअलोन वित्तीय परिणामों पर विचार, अनुमोदन तथ रिकार्ड पर लिए जाएंगे।

कथित सूचना कम्पनी की वेबसाइट https://www.aiml.in तथा बीएसई की वेबसाइट http://www.bseindia.com प देखी जा सकती है। कृते एलायंस इंटीग्रेटेड मेटलिक्स लिमिटेड

दलजीत सिंह चहल

पूर्णकालिक निदेशव स्थानः नई दिल्ली

तिथि: 05.11.2020

तरिणी एन्टरप्राइजेज लिमिटेड सीआईएनः L51101DL2006PLC148967 3/14ए, प्रथम तल, विजय नगर डबल स्टोरी. दिल्ली-110009 दूरभाष: +91-11-32601237.

फैक्स: 43711286 ई-मेलः info@tarinienterprises.in वेबसाइटः www.tarinienterprises.in

सूचना एतद्वारा सूचना दी जाती है कि 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही/छमाही के लिए अन्य बातों के साथ-साथ कम्पनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों (स्टैंडएलोन) पर विचार करने के लिए कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठक बृहस्पतिवार, 12 नवम्बर, 2020 को 3/14ए, प्रथम तल, विजय नगर डबल स्टोरी, दिल्ली-110009 पर आयोजित की जायेगी। कथित सूचना कम्पनी की वेबसाइट अर्थात

(www.tarinienterprises.in) तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट अर्थात (www.msei.in) पर भी उपलब्ध है।

कृते तरिणी एन्टरप्राइजेज लिमिटेड

स्थानः दिल्ली अभय चन्द बरदिया (डीआईएन: 00009217)

कास्टेक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (पूर्व का एमटेक इण्डिया लिमिटेड) आईएन : L65921HR1983PLC03378 पंजीकृत कार्यालय : ग्राम नरसिंहपुर, मदपुर, ओल्ड मानेसर रोड, गुरुग्राम, हरियाणा-123106 दूरभाष : +91-11-42344444 : +91-11-42344400 कॉरपोरेट कार्यालय : 3 एलएससी पम्पोश

वेबसाइट : www.amtek.com सुचना सेबी (सचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ विनियम, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुसार, एतद्वारा सूचना दी जाती है कि श्री दिनकर टी. वेंकटसुब्रह्मण्यम (आईपी पंजीकरण सं. IBBI/IPA-001/IP-P00003/2016-17/10011) (समाधान प्रोफेशनल) अन्य बातों के साथ-साथ 30

लेव, ग्रेटर कैलाश-**I,** नई दिल्ली-11004

ई-मेल: info@amtek.com:

सितम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के अलेखापरीक्षित स्टैण्डअलोन एवं समेकित वित्तीय परिणामों पर शुक्रवार, 30 नवम्बर, 2020 कं विचार तथा अनुमोदन करेंगे। कथित सचना कम्पनी की वेबसाइट www.amtek.com/ail.php तथा बीएसई की वेबसाइट http://www.bseindia.com एवं रनएसई की वेबसाइट http://www.nsein

कृते कास्टेक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (कॉरपोरेट ऋणशोधन समाधान प्रक्रिया के तहत

dia.com पर देखी जा सकती है।

तिथि

: 06.11.2020

स्थान : नई दिल्ली

कम्पनी) ह./ दिव्या रिजवानी कम्पनी सचिव श्री दिनकर तिरुवन्नदापुरम वेंकटासुब्रह्म के अनुमोदन से निर्गत (समाधान प्रोफेशनल) आईपी पंजीकरण सं IBBI/IPA-001

शान्तनु इन्वेस्टमेंट्स (इण्डिया) लिमिटेड सीआईएन : L65993DL1973PLC006795 पंजीकृत कार्यालय : डीएससी-319, डीएलएफ साउथ कोर्ट. साकेत. नई दिल्ली-110017 ई-मेल : cs@greatvalueindia.com, दरभाष : 011-41349612-14

IP-P00003/2016-17/1001

वेबसाइट : www.shantnuinvestments.com विषय : सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 29(1) के तहत बोर्ड बैठक की

करते हैं कि सेबी (सूचीबद्धता विनियम एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ 30 सितम्बर 2020 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन हेत् शान्तनु इन्वेस्टमेंट्स (इण्डिया) लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक बृहस्पतिवार, 12 नवम्बर 2020 को 03.30 बजे अप. इसके पंजीकत कार्याल डीएससी-319, डीएलएफ साउथ कोर्ट, साकेत, नई दिल्ली-110017 पर आयोजित की जायेगी। कृते शान्तनु इन्वेस्टमेंट्र

(इण्डिया) लिमिटेड स्थान : नई दिल्ली ह.∕

तिथि : 06.11.2020 विनय आनन्द कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

हिन्द सिक्यूरिटीज एंड क्रेडट्स लिमिटेड पंजी कार्या : डी – 16, ग्यउंड फ्लोर, उदयोग नगर, नांगलोई. दिल्ली - 11004 सीआईएन : L74899DL1993PLC056702 फोन: +91-9899425575 ई-मेल : supersecurities1993@gmail.com,

info_hindsecurities@yahoo.in

वेब : www.supersecurities.in

सूचना

सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षाप् विनियमन, 2015 के विनियमन 29, 33 के साध ाठित विनियमन 47 के प्रावधानो के अनुपालन तदद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी व नेदेशक मंडल की एक बैठक **शुक्रवार, 13 नवम्बर** 2020 को दोपहर 12:00 बजे कंपनी के पंजीक कार्यालय डी— 16, ग्राउंड फ्लोर, उद्योग नगर नांगलोई, दिल्ली — 110041 में आयोजित की जिसमें 30 सितम्बर, 2020 को समाप जाएगी. तिमाही हेतु कम्पनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम विचारित और अनुमोदित किए जाएंगे। पुन : ये विवरण कंपनीं की बेबसाईट अर्था www.supersecurities.in के साथ ही साथ स्टॉक क्सचेंज की बेबसाईट अर्थात् www.bseindia.cor

पर भी उपलब्ध है। हिन्द सिक्यूरिटीज एंड क्रेडट्स लिमिटेड के लिए हस्ता. /-पारूल चड्ढा कम्पनी सचिव एव

तिथि : 06.11.2020 अनुपालन अधिकारी

भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India आस्ति वसूली शाखा, स्टेट बैंक हाउस,18/4, आग् माज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली—110005 कोन : 011—28752163, फैक्स : 28755674 ई—मेल : sbi.51521@sbi.co.in

शुद्धि-पत्र यह विज्ञापन दिनांक ०४ ११ २०२० को प्रकाशित हुआ था। संपत्ति ई-नीलामी दिनांक 26.11 2020 था। जिसका सीरियल नंबर 3 मैसर्स जी पी ऑयल मिल्स का नाम नीलामी से वापस ले लिया गया है। बाकी सभी नियम व शर्ते

दिनांक : 04.11.2020 प्राधिकृत अधिकारी, मास्तीय स्टेट बैंक स्थान : नई दिल्ली एसएबारबी ब्रान्य-।।, करोल बाग, नई दिल्ली (शाखा कोठ 51521)

CAPFIN INDIA LIMITED CIN: L74999DL1992PLC048032 Regd. Off: PP-1, Gali No.10, Industrial Area Anand Parvat, New Delhi - 110005 Email: capfinindialtd@yahoo.co.in

NOTICE Notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company has been scheduled to be held on Wednesday November scheduled to be held on Wednesday November 11, 2020 at 3:00 p.m. at the registered office of the company at PP-1, Gali No. 10, Industrial Area Anand Parvat, New Delhi – 110005 to consider, approve and take on record, inter-alia the quarterly un audited financial results of the Company for the quarter ended on September, 2020 and other relevant matters

For Capfin India Limited

Rachita Mantry Place: Delhi Whole Time Director Date: November 4, 2020 Din: 03414391



जेबीएम ऑटो लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय: 601, हेमकुंत चैम्बर्स, 89, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 सीआईएन: L74899DL1996PLC083073 ई-मेल: jbma.investors@jbmgroup.com; वेबसाइट: www.jbmgroup.com फोन: 011-26427104-06; फैक्स: 011-26427100 कंपनी सूचना

सेबी (सूचिबद्ध दायित्वो और प्रकटीयकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 29 और 47 के अनुसरण में एतदद्वार सूचित किया जाता है कि, अन्य विषयों के साथ-साथ कंपनी के 30 सितंबर, 2020 को समाप्त द्वितीय तिमाही और अर्ध वार्षिक के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार करने के लिये कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक बृहस्पतिवार, 12 नवंबर 2020 को निर्धारित की गई है।

उपरोक्त बैठक का विवरण कंपनी की वेबसाइट www.jbmgroup.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com से भी प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा. इन्साइंडर टेडिंग की

रोकथाम के लिये कंपनी की आचार संहिता के अनुरूप कंपनी के शेयरों के कारोबार के लिये ट्रेडिंग विंडो को कंपनी के निदेशकों, केएमपी, प्रमोटर्स एव प्रमोटर्स ग्रुप और पदनामित व्यक्तियों के लिये 1 अक्टूबर, 2020 से 12 नवंबर 2020 को परिणाम सार्वजनिक किये जाने के उपरांत 48 घण्टे समाप्त होने तक, के लिये बंद रहेगी। कृते जेबीएम ऑटो लिमिटेड

हस्ता / -(विवेक गुप्ता) तिथि: 06.11.2020 एवं कंपनी सचिव

पैन इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड पंजी. कार्या.: 711, 7वाँ तल, नई दिल्ली हाउस, 27, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली–110001 CIN: L72200DL1984PLC017510

सूचना सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 तथा लागू होने वाले अन्य विनियमनों के साथ पठित विनियमन 29 के प्रावधानों के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक शुक्रवार, 13 नवम्बर, 2020 को 2.30 बजे अप. में पंजी रोड. नई दिल्ली-110001 में आयोजित की जाएगी जिसमे अन्य विषयों के साथ 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही तथा लमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों तथा विचार, अनुमोदन कर उसे अभिलेख में लिये जाएंगे। यह जानकारी कम्पनी की वेबसाईट www.panin diacorp.com स्टॉक एक्सचैंजों जहां कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, की वे www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

पैन इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए

विजय पाल शक्ला स्थानः नई दिल्ली प्रबंध निदेशक 06.11.2020

बिट्स लिमिटेड टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड

टाटा पावर एवं दिल्ली सरकार का संयुक्त उपक्रम -DDL रजि. आफिस : एनडीपीएल हाउस, हंडसन् लाइन, किरसवे कंप, दिल्ली—110009 फोन : 66112222, फेक्स : 27468042, ईमेल : TPDDL@tatapower-ddl.com CIN No. : U40109DL2001PLC111526, वेबसाइंट : www.tatapower-ddl.com

निविदा सूचना आमंत्रित टाटा पावर-डीडीएल निम्न मदों के लिए निविदाएं आमंत्रित करता है:

ordinate ordinate in the territorial and attitude									
निविदा पूछताछ सं. कार्य का विवरण	अनुमानित लागत /धरोहर जमा राशि (रु)	परतापण	बोली जमा कराने की अंतिम तारीख और समय/ निविदा खोलने की तारीख और समय						
TPDDL/ENGG/ENQ/200001251/20-21 Meter Data Downloading	2.32 Cr. / 2,90,500	07.11.2020	28.11.2020;1500 Hrs. 28.11.2020;1530 Hrs.						
TPDDL/ENGG/ENQ/200001255/20-21 Annual Rate Contract for supply of GI Earthing Pipes at TPDDL Site/Store.	1.98 Cr. / 2.48 Lacs	07.11.2020	01.12.2020;1600 Hrs. 01.12.2020;1630 Hrs.						
Earthing Pipes at TPDDL Site/Store.	_ 00								

शुद्धिपत्र / निविदा तिथि विस्तार							
निविदा पूछताछ सं. कार्य का विवरण	पूर्व प्रकाशित दिनांक	संशोधित निविदा तिथि/बोली जमा कराने की तिथि/बोली खोलने की तिथि					
TPDDL/ENGG/ENQ/200001247/20-21 RFX-5000001897 PO for Supply of Secondary Injection	13.10.2020	13.11.2020; 1600 Hrs/ 13.11.2020; 1700 Hrs					

Kit and Analyser Kit सम्पूर्ण निविदा एवं शुद्धिपत्र दस्तावेज हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध

website www.tatapower-ddl.com→ Vendor Zone → Tender / Corrigendum Documents Contracts - 011-66112222

कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर दिनांकः 13/10/2020

क्रमांक-व-15(4) पीएस/सामग्री/टेण्डर/2020-21/10016 ई-बोली आमंत्रण सूचना

निम्नलिखित आईटम प्रदाय करने हेतु ई-बोली (e-Bid) आमंत्रित की जाती है। बोली दस्तावेजों को को प्रातः 11.00 बजे वेबसाई दिनांक 14.10.2020 से http://www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड प्रारम्भ किया जा सकेगा तथा बोली दिनांक 12.01.2021 को प्रातः 11.00 बजे तक निर्धारित दस्तावेजों के साथ इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट मे उक्त वेबसाईट पर प्रस्तत की जा सकेगी। वित्त (जी एंड टी) विभाग के परिपत्र संख्या प.6 (5) वित्त/सा.वि.ले. नि/2018 दिनांक 27.04.2020

के अनुसार ऑन लाइन प्रस्तुत की जाने वाली बोली हेतु निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क एवं बोली प्रतिभति राशि एक ही चालान से ऑनलाईन ई ग्रास सिस्टम के माध्यम से जमा करवाय जाना आवश्यक है। वित्त विभाग के आदेश दिनांक 09.07.2020 में ई ग्रास पोर्टल पर ऑन लाईन चालान से फीस जमा करवाए जाने की पर्ण प्रक्रिया दी गई है। ई-बोली की क्वालिफाईड बिड दिनांक 13.01.2021 को दोपहर 12.00 बजे खोली जावेगी।

विस्तृत बोली आमंत्रण सूचना, बोली की मुख्य शर्तों एवं तत्सम्बंधी अन्य विवरण को वेबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in अथवा विभागीय http://www.police.rajasthan.gov.in अथवा राजस्थान सरकार के राज्य लोक उपापन

Proc	Procurement पाटल (nttp://sppp.raj.nic.in) पर दखा जा सकता ह।										
क्र.सं.	वस्तु का नाम	अनुमानित	कुल अनुमानित	बोली प्रतिभूति	सप्लाई अवधि						
		मात्रा	कीमत	(रुपयों में)	(दिनों में)						
1	BULLET PROOF	04	32000000	640000	30 days						
II.	DDISON VAN										

नोटः-

DIPR/C/8726/2020

1. बजट की उपलब्धता के अनरूप उपरोक्त आईटम की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है। 2 उक्त आईटमों का विभाग द्वारा चाहे जाने पर डेमॉन्स्ट्रेशन प्रस्तुत करना होगा।

> (पीयष दीक्षित पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय भण्डार, पुलिस मुख्यालय राजस्थान, जयपुर

हस्ता./

पंजी. कार्या.: 711, 7वाँ तल, नई दिल्ली हाउस, 27, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001 CIN: L72200DL1992PLC241971

सूचना सेबी (सचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमः विनियमन 47 तथा लागू होने वाले अन वेनियमनों के साथ पठित विनियमन 29 के प्रावधानों वे अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी वे देशक मंडल की एक बैठक शुक्रवार, 13 नवम्बर, 2020 को 11.00 बजे पूर्वा. में पंजी. कार्या.: 711, 7वाँ तल, नः दिल्ली हाउस, 27, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-11000 आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 सित ०२० को समाप्त तिमाही तथा छमाही के अनंकेक्षित विनी परिणामों पर विचार, अनुमोदन कर उसे अभिलेख में लि

यह जानकारी कम्पनी की वेबसाईट www.bits.net. था स्टॉक एक्सचैंज जहां कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध है की वेबसाईट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है बिटस लिमिटेड के लि

स्थान: नर्ड दिल्ली हस्ता./ सुरेन्द्र सिंह टैंगर तिथि: 6.11.2020 कम्पनी सचिव एट अनुपालन अधिकार्ग

बी.सी. पॉवर कंट्रोल्स लिमिटेड (CIN:L31300DL2008PLC179414) पंजीकृत कार्यालयः 7A/39, डब्ल्यूईए चन्ना मार्केट, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 ई-मेलः lnfb@bonlongroup.com वेबसाइटः www.bcpowercontrols.com दूरभाषः 01147532795, फैक्सः 01147532798

सेबी (सचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियम 29 के साथ पठित विनियम 47 के अनुसा एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अन्य बातों के साथ-साथ 30 सेतम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही हेतु कम्पनी वे अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनमोदः हेतु कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक शुक्रवार, 13 गम्बर, 2020 को इसके पंजीकृत कार्यालय 7A/39 डब्ल्यईए चन्ना मार्केट, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 फ आयोजित की जायेगी।

इसके अलावा ये विवरण कम्पनी की वेबसाइट अर्थात vww.bcpowercontrols.com, तथा स्टॉक एक्सचेंज ्बीएसई लिमिटेड) की वेबसाइट www.bseindia.con पर भी उपलब्ध हैं।

पुनः, कम्पनी इनसाइडर ट्रेडिंग रोकथाम आचार संहिता वे साथ पठित सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग निषेध) विनियम, 2015 के अनुसार, कम्पनी की प्रतिभृतियों में संव्यवहार हेतु सभी निदेशकों, अधिकारियों एवं कम्पनी के निर्दिष्ट कर्मचारियों वे लिए ट्रेडिंग विंडो 1 अक्टूबर, 2020 से 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही हेतु वित्तीय परिणामों की घोषणा के 48 घंटे पश्चात तक बन्द रहेगी।

बोर्ड के आदेशानस बी.सी. पॉवर कंट्रोल्स लिमिटेड तिथि: 06.11.2020 स्थानः नई दिल्ली (अंकित गर्ग

कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकार

सदस्यता सं.: A4591

NOTICE NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 29 & 47 of SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirement) Regulations, 2015, the Meeting of Board of Directors of Medicamen Biotech Limited will be held on Friday, November 13, 2020, at 1506 Chiraniiv Tower, 43 Nehru Place New Delhi-110019 inter alia to consider, approve and take on record the Un-audited Financial Results (Standalone Consolidated) for the half year ending o

MEDICAMEN BIOTECH LTD.

Regd. Office: 1506, Chiranjiv Tower 43, Nehru Place, New Delhi - 110019 (CIN: L74899DL1993PLC056594)

Website: www.medicamen.com Email id: cs@medicamen.com

September 30, 2020 The notice may be accessed on the Company's website at www.medicamen.com and may also be accessed on the Stock Exchange website at

By order of the Board camen Biotech Limited Place: New Delhi Parul Choudhary Company Secretary

जेनेसिस फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड

पंजीकत कार्यालय : 4 एमएमटीसी/एसटीसी मार्केट, गीतांजलि, नई दिल्ली-110017 कॉर्पोरेट कार्यालय : 315. स्क्वॉयर वन मॉल. साकेत डिस्टिक्ट सेंटर. नई दिल्ली-110017 दुरभाष : 011-26691132, सीआईएन : L65910DL1990PLC040705 ई-मेल : gopalbishtgfcl@gmail.com, वेबसाइट : www.genesisfinance.net

सूचना . प्रावधानों के अनुसार एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अन्य बातों के साथ–साथ 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त तेमाही तथा छमाही हेतु अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों तथा कार्यसूची में उल्लिखित अन्य मदों, यदि कोई हो, प वचार. अनमोदन तथा रिकार्ड पर लेने जिसकी सीमित समीक्षा कम्पनी के विधिक लेखा परीक्षकों द्वारा की जायेगी हेतु जेनेसिस फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड के निदेशक मण्डल की बैठक बृहस्पतिवार, 12 नवम्बर, 2020 को . मएमटीसी/एसटीसी मार्केट, गीतांजिल, नई दिल्ली-110017 पर निर्धारित की गयी है।

पुनः, कम्पनी की आचार संहिता के साथ पठित भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग निषेध) ु विनियम, 2015 के अनुसार कम्पनी की प्रतिभृतियों में संव्यवहार करने हेतु ट्रेडिंग विंडो कम्पनी के सभी नेदेशकों/अधिकारियों/निर्दिष्ट कर्मचारियों/विशिष्टीकृत व्यक्तियों हेतु बृहस्पतिवार, 1 अक्टूबर, 2020 से बन्द रहेगी और वित्तीय परिणामों को जनसामान्य हेतु प्रकाशन के 48 घण्टे पश्चात खोली जायेगी।

इस सम्बन्ध में सूचना कम्पनी की वेबसाइट अर्थात http://genesisfinance.net से तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट https://www.msei.in से एक्सेस की जा सकती हैं।

कृते जेनेसिस फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड

कृष्णा राजेन्द्र डायमा स्थान : नई दिल्ली (कम्पनी सचिव) सदस्यता सं. : ए54238

3 Dr Lal PathLabs

Dr. Lal PathLabs Limited CIN: L74899DL1995PLC065388

Regd. Office: Block E, Sector-18, Rohini, New Delhi-110085 Corporate Office: 12th Floor, Tower B, SAS Tower, Medicity, Sector-38, Gurugram-122001, Haryana Tel.: +91-124-3016500; Fax: +91-124-4234468; Website: www.lalpathlabs.com; Email: cs@lalpathlabs.com

Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the quarter & half year ended 30 September, 2020

S.	Particulars	3 months ended 30 September, 2020	Half year ended 30 September, 2020	3 months ended
No.		(Unaudited)	(Unaudited)	30 September, 2019 (Unaudited)
1	Total Income from Operations	4,448	7,222	3,804
2	Net Profit for the period before Tax and Exceptional items#	1,166	1,547	1,023
3	Net Profit for the period before Tax and after Exceptional items#	1,166	1,547	1,023
4	Net Profit for the period after Tax and after Exceptional items#	871	1,155	810
5	Total Comprehensive Income for the period after Tax#	880	1,155	816
6	Paid-up Equity Share Capital (face value of ₹ 10/- per share)	833	833	833
	Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) (not annualised)			
7	(a) Basic (In ₹)	10.34	13.79	9.77
	(b) Diluted (In ₹)	10.31	13.75	9.75

*Before non-controlling Interest Notes:

Place: Gurugram

Date: 6 November, 2020

i.	Key numbers of the Standalone Results are as under:	(₹ in million, except as stated						
S. No.	Particulars	3 months ended 30 September, 2020	Half year ended 30 September, 2020	Corresponding 3 months ended 30 September, 2019				
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)				
1	Total Income from Operations	4,168	6,829	3,674				
2	Profit for the period before Tax	1,068	1,453	998				
3	Profit for the period after Tax	799	1,087	795				
4	Total Comprehensive Income	809	1,088	802				
ii.	The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective							

meetings held on 6 November, 2020.

The Board of Directors, which has been identified as being the Chief Operating Decision Maker (CODM), evaluates the Group's performance and allocates resources based on the analysis of the various performance indicators of the Group as a single unit. Therefore, there is no reportable segment for the Group, in accordance with the requirements of Indian Accounting Standard 108 - 'Operating Segments', prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013.

The above is an extract of the detailed format of quarterly and six months financial results, as per Ind AS filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full Financial Results of the guarter and half year ended are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and the Company's website (www.lalpathlabs.com). For and on behalf of the Board of Directors of

Dr. Lal PathLabs Limited

(Hony) Brig. Dr. Arvind Lal **Executive Chairman**

ई-प्रोक्योरमेंट सेल पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची

<u>ई-प्रोक्योरमेंट निविदा, (प्रथम आमंत्रण)</u>

Tender reference No- DWSD/RPWS/GIRIDIH-2/21/2020-21 Date- 05-11-2020 अग्रधन राशि प्राक्कलित राशि परिमाण विपत्र राशि विवरणी (रू0 में) Detailed survey, design and drawing, construction of 1.25 MLD capacity Conventional Water Treatment Plant, Intake well with Pump House, R.C.C. Gangway, Elevated Service Reservoir-1 No. (Capacity of 3.25 lakh liters, 18 Mtr. Staging), Supplying and laying Raw / Clear water rising main & Distribution Network, Boundary wall, Staff marter, Supplying and installation of Vertical Turbine pump and Centrifugal pump, Power transformer, House connection with allied works etc.and two years O&M all complete job for CHILGA AND ADJOINING VILLAGES RURAL PIPE WATER SUPPLY SCHEME under D.W. & S. 1157.03 11.58 10,000.00 Division, no. -2 GIRIDIH on turnkey basis 2 कार्य पूर्ण करने की अवधि 24 Months + 3 months (trial and run) वेबसाईट पर निविदा प्रकाशन की तिथि 17-11-2020 at 4:00P.M वेबसाईट पर बिड प्राप्ति की तिथि / समय 4 From 17-11-2020 4:00P.M 28-11-2020 up to 4:00P.M बिड प्राप्ति के लिए अन्तिम तिथि / समय 01-12-2020 up to 4:00P.M निविदा की हार्ड कॉपी जमा करने की 6 कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल संख्या–02, तिथि / समय / स्थान गिरिडीह / अधीक्षण अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, धनबाद। बिड खोलने की तिथि/समय 02-12-2020 up to 1:00P.M 13-11-2020 /12:30 PM 8 प्री-बीड बैठक का स्थान एवं तिथि O/o Engineer-in-chief, DWSD, Nepal House, Ranchi 9 निविदा प्रकाशित करने वाले कार्यालय का नाम एवं पता। कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल संख्या–02, गिरिडीह।

ई—पोक्योरमेंट सेल का हेल्पलाईन संख्या 11 0651-2480345 किसी भी प्रकार का बदलाव <u>http://Jharkhandtenders.gov.in</u> पर देखा जा सकता है। अन्य किसी भी प्रकार की सूचनां http://Jharkhandtenders.gov.in पर देखा जा सकता है। निविदा में प्राक्कलित राशि घट—बढ सकती हैं। तत्पश्चात अग्रधन की राशि मान्य होगी।

PR 235484 (Drinking Water and Sanitation)20-21#D

प्रोक्योरमेंट पदाधिकारी का सम्पर्क संख्या

10

SEASONS

Place: New Delhi

Date: 06.11.2020

पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल संख्या–02, गिरिडीह

7292898986

कार्यपालक अभियंता,

(Rs. In Lacs)

SEASONS FURNISHINGS LIMITED CIN - L36101DL1990PLC039238

Registered office: 64, Ground Floor, Ring Road Lajpat Nagar III, New Delhi 110024 Email: cs@seasonsfurnishings.com, Website: www.seasonsfurnishings.com Phone No. 011-41582040

EXTRACTS OF AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED ON 30[™] SEPTEMBER 2020

	PARTICULARS	Quarter ended			Half Yea	Years ended	
	174(11602)416	30-09-2020	30-06-2020	30-09-2019	30-09-2020	30-09-2019	31-03-20
1	Total income from operations (Net)	108.99	12.02	159.76	121.01	301.03	590.2
2	Net Profit/ (Loss) for the period	41.35	(334.89)	(3.68)	(293.54)	0.49	(727.93
	(before tax and exceptional items)						
3	Net Profit/ (Loss) for the period	41.35	(334.89)	(3.68)	(293.54)	0.49	(727.93
	(before tax and after exceptional items)						
4	Net Profit/ (Loss) for the period	42.08	(335.64)	(0.92)	(293.56)	0.42	(728.17
	(after tax and after exceptional items)						
5	Total comprehensive Income for the period	42.08	(335.64)	(0.92)	(293.56)	0.42	(728.17
	after comprising Profit/ (Loss) for the period						
	(After tax) and other comprehensive Income						
	(after Tax)						
6	Equity Share Capital	739.39	739.39	739.39	739.39	739.39	739.39
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as						
	shown in the Balance Sheet of previous year)						
8	Earnings Per Share (Face Value of Rs. 10/- each)						
	(for continuing and discontinued operations)						
	Basic:	0.57	(4.54)	(0.01)	(3.97)	0.01	(9.85
	Diluted:	0.57	(4.54)	(0.01)	(3.97)	0.01	(9.85

30.09.2020 filed with the stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing and other disclosure requirements) Regula 2015. The full format of the Quarterly/Annual standalone Financial Results for the Quarter and half year ended on 30.09.2020 are available on the website of the stock exchange (www.bseindia.com) and the company's website www.seasonsfurnishings.com For and on behalf of the Board of Directors

> (Mandeep Singh Wadhwa Chairman & Managing Director

दिनांकः 06 नवंबर 2020

स्थानः दिल्ली

भारत सरकार लोक उद्यम चयन बोर्ड

विज्ञापन संख्या- 96/2020

हिन्दस्तान शिपयार्ड लिमिटेड

निदेशक (सामरिक परियोजना) पद के लिए आवेदन आमंत्रित करता है।

लोक उद्यम चयन बोर्ड में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि

21 दिसम्बर, 2020 (15.00 बजे तक) है। जानकारी के लिए वेबसाइट http://www.pesb.gov.in में लॉगइन करें

R R FINANCIAL CONSULTANTS LIMITED CIN: L74899DL1986PLC023530 Regd. Off:- 412-422, 4th Floor, Indraprakash Building, 21 Barakambha Road, New Delhi-110001

Phone:- 011-23354802 Email id:- cs@rrfcl.com Website:- www.rrfcl.com

NOTICE Notice is hereby given that pursuant to Reg. 29 of SEBI Listing Regulations 2015, (LODR), we are pleased to inform you that a meeting of the Board of Directors will be held on Friday, 13" November, 2020 at 05:30 p.m. at the registered office of the Company for considering the

Unaudited Financial Results for the quarter ended 30th September, 2020.

Place: New Delhi Dated: 06th November, 2020

Rajat Prasac Managing Director

For R R Financial Consultants Limited

IT RITES

राईट्स लिमिटेड राईट्स भवन, प्लॉट नं. 1, सैक्टर—29, गुडगॉव – 122001

ई-निविदा आमंत्रण नोटिस हाप्रबंधक – EXPOTECH, राईट्स लिमिटेड द्वारा नीचे दी गयी जानकारी के अनुसार MCF/ICF/RCF व

अनुमोदित बिर्डस से एक पैकेट सिस्टम के तहत ई—निविदा आमंत्रित की जाती है। वस्तु और मात्रा : केप गेज डीईएमयू के लिए बोगी की रचना, विकास, उत्पादन, और उपलब्ध कराना, **निविदा** सन्दर्भ : RITES/EXPO/05/MOZ/DEMU/BOGIE, बयाना जमा राशि EMD : रू 14.24.000 (केवल चौदह लाख चौबीस हजार भारतीय रुपये). **समापन अवधि** : 04 महिने, **निवदा प्रपत्र को जमा करने की अंतिम**

तिथि : 23.11.2020 को 11:00 बजे तक (IST) निविदा प्रपत्र और अन्य विवरण वेबसाइट http://ritesltd.com/ और सीपीपी पोर्टल https://etenders.gov.in/eprocure/app से प्राप्त किए जा सकते हैं। परिशिष्ट/शुद्धि, यदि कोई हो, केवल ऑनलाइन ही होस्ट की जाएगी



ARYAMAN FINANCIAL SERVICES LIMITED

CIN: L74899DL1994PLC059009 Regd Office: 102, Ganga Chambers, 6A/1, W.E.A., Karol Bagh, New Delhi - 110 005

Corporate Office: 60, Khatau Building, Gr. Floor, Alkesh Dinesh Modi Marg, Opp. P.J. Tower (BSE Bldg.), Fort, Mumbai – 400 001 Tel. No.: 022- 6216 6999 | Fax: 2263 0434 Website: www.afsl.co.in | Email: info@afsl.co.in

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 47 read with Regulation 33 of SEB (LODR) Regulations, 2015 a meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, November 13, 2020 at 04.30 PM, at Corporate Office of the Company at 60. Khatau Building, Ground Floor, Alkesh Dinesh Modi Marg, Opp. P. J. Tower (BSE Bldg.), Fort, Mumbai - 400 001, inter-alia to discuss and approve Unaudited Consolidated and Standalone Financial results for the quarter / half year ended September 30, 2020. Further, in terms of the Code of Conduct of Company adopted under SEBI (Prohibition

of Insider Trading) Regulations, 2015 the trading window for dealing in the securities of the Company is already closed and shall open 48 hours after conclusion of the

The said Notice is available on the website of BSE Limited and on Company's website (http://www.afsl.co.in/investor-relation.html). For and on behalf of

Place: Mumbai Date: 06.11.2020

> JYOTIRGAMYA ENTERPRISES LIMITED CIN: L24100DL1986PLC234423

Aryaman Financial Services Limited

Chaitali Pansari

(Company Secretary)

Regd. off: Office No.3, IInd Floor, P 37/38, Gomti Complex, Pandav Nagar Mayur Vihar, Phase-1, East Delhi-110091. Ph: +91-9205562494, Email: jyotirgamyaenterprises@gmail.com Website- www.jelglobe.com

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING Notice is hereby given that the Annual General Meeting (AGM) of the members of the company will be held on Saturday, 28th day of November, 2020 at 12.30 P.M. through Video Conferencing/other Audio Visual Means (VC/OAVM) to transact the businesses mentioned in the Notice of said AGM, which has been email to the Members by Friday, 6th November, 2020.

Further, Pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 the register of members and transfer book will remain closed from 19.11.2020 to 28.11.2020 (Both days inclusive) for the purpose of AGM.

In pursuance of section 108 of the Companies Act, 2013 read with rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation of the SEBI (LODR) Regulation 2015, the Company is providing e-voting facility to its Members as provided by CDSL on all resolution as set out in the Notice of AGM. Members of the company may transact the business through voting by electronic means. 1. The remote e-voting facility commence at 09.00 a.m. on 25.11.2020 and will end at 5.00

p.m. on 27.11.2020 for all shareholders, whether holding shares in physical form or ir dematerialized form. The e-voting module shall be displayed by CDSL for Voting. Remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. The cut-off date to determine eligibility to cast votes by electronic Voting is 13.11.2020

2. The cutton date to determine digitals, in a second person, who acquires shares and become shareholders of the company after dispatch.

2. The cutton date to determine digitals and the cutton of t id and password by sending an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com, admin@skylinerta.com by mentioning their folio no./DP ID and Client ID No. However if such shareholder is already registered with CDSL for remote e-voting then existing user id and password can be used for remote e-voting.

 Facility for voting through ballot paper shall also be made available at the AGM. Members attending the meeting, who have not already cast their vote by remote e-voting, shall be able to exercise their right at the meeting. 5. A member may participate in the meeting even after exercising his right to vote through

emote e-voting, but shall not allowed vote again at the meeting. Notice of AGM is available on company website www.jelglobe.com and on the website

of CDSL-www.evotingindia.com. A person, whose name recorded in the register of members or in the register of beneficia owners maintained by the depositories as on 13.11.2020, shall be entitled to vote. In case you have any queries or issues regarding e-voting, kindly refer frequently asked questions and e voting manual available at www.evotingindia.com, under Help section or Email help desk.evoting@cdslindia.com, Toll Free No. 1800-200-5533 or Mr. Sahil Minhaj

Khan, Managing Director of the Company at jyotirgamyaenterprises@gmail.com/ +91

For Jyotirgamya Enterprises Limite

Sahil Minhai Khai

Managing Directo

(DIN: 06624897

Date: 06.11.2020 Place : New Delhi

> (कम्पनी अधिनियमए 2013 के तहत एक धारा 8 कम्पनी) सीआईएन U85100DL2014NPL274786 पंजीकृत कार्यालयः 806, सिद्धार्थ, 96, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली-110019

ई-मेल आईडी: <u>shamsher.singh@hcl.com</u> ; टेलीफोन +91-11-26436336 फार्म संख्या आईएनसी-19 "नोटिस"

कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 22 के अनुसार रतद द्वारा सचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 8(4)(ii) के अनुसार

(आरओसी), दिल्ली को कम्पनी अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत जारी लाइसेंस को प्रतिसहत करने के लिए तथा कम्पनी को धारा 8 कम्पनी से पब्लिक लिमिटेड कम्पनी में परिवर्तित करने के लिए आवेदन किया गया है। इस प्रकार के लाइसेंस को प्रतिसंहत करने के बाद कम्पनी को अपने नाम में काउंडेशन के स्थान पर "पब्लिक लिमिटेड" शब्दों को जोडने की आवश्यकता होगी। ज्ञारा <mark>8 कम्पनी के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है</mark>ं:

. 'एचसीएल फाउंडेशन" ("आवेदक" या "धारा ८ कम्पनी") द्वारा कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली एवं हरियाणा

.स्वास्थ्य देखभाल में सुधार करते हुए, जिसमें निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता शामिल है और सुरक्षित पीने का पानी उपलब्ध कराते हुए भूख, गरीबी और कूपोषण का निवारण करने के लिए

2 व्यावसायिक कौशलों को बढाते हुए, विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, वृद्धों और विकलांगों के बीच शिक्षा को बढावा देना जिसमें विशेष शिक्षा और रोजगार और जीवनयापन को बढावा देना भी शामिल 3.लिंग समानता को बढावा देना. महिलाओं को सशक्त करना, महिलाओं और अनाथों के लिए मकान और होस्टनों की स्थापना, वृद्धाश्रमों की स्थापना, डे केयर सेंटरों और वरिश्ठ नागरिकों के लिए अन्य सुविधाओं के लिए गतिविधियां करना और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के साथ

नेदभावों को कम करने के लिए कदम उठाना। 4.ग्रामीण विकास परियोजनाओं, अर्द्ध—शहरी और शहरी बस्तियों का विकास करना जिनमें स्वास्थ देखभाल, शिक्षा, आधारभूत संरचना का निर्माण, स्वच्छता, पीने का सुरक्षित पानी, आदि गतिविधियां

संरक्षण और सम्पूर्ण सामाजिक और आर्थिक विकास में सहायता के लिए इस प्रकार की अन्य कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी की गतिवधियां करना। इस प्रकार की गतिविधियों में पर्यावरणीय कापारट सामाजिक जिम्मदारा का गातवाध्या करना। इस प्रकार का गातावाध्या म प्यावरणाय विरस्थायीत्व को सुनश्चित करना, पारिस्थितिकीय संतुलन, जीव और वनस्पित की सुरक्षा, पश्च कल्याण, कृशि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और मिट्टी, वायु और जल की गुणवत्ता को बनाए रखना; राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति की सुरक्षा, एअसमें भवनों और एतिहासिक महत्व के स्थलों और कला के कार्यों का जीर्णोद्धार, सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना, पारम्परिक कलाओं और हस्तशिटमों का संबधन; सशस्त्र बलों के सैनिकों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों के लाभ के लिए कदम उठाना; ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय खेलों, रंपिलीम्पक खेलों और ओलिम्पक खेलों को उत्पादकों के स्वित्र श्रीकृतिक स्वावता के स्वावता के स्वावता की स्वावता बढावा देने के लिए प्रशिक्षण संबंधित गतिविधियां शामिल हो सकती हैं।

परिवर्तन के बाद बनी कम्पनी के ड्राफ्ट मेमोरंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की प्रति को कम्पनी के पंजीकत कार्यालय पर देखा जा सकता है। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, निगम या, बॉडी कॉर्पोरेट इस

भावेदन पर आपितत रखता है, तो वह आरओसी को इस नोटिस के प्रकाशन के तीस दिन के अंदर रक पत्र के द्वारा सचित कर सकता है जो कम्पनी रजिस्टार, दिल्ली एवं हरियाणा, चौथा तल आईएफसीटी टॉवर, 61-नेहरु प्लेस, नई दिल्ली-110019 को संबोधित होना चाहिए और जिसकी एक प्रति आवेदक को उसके पंजीकृत कार्यालय पर भेजी जानी चाहिए।

हस्ता./-नलिन मित्तल निदेशक

कृते एचसीएल फाउंडेशन

5.आम आदमी के सामाजिक और आर्थिक उत्थान, पर्यावरण सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधनों के